



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1808]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 17, 2014/भाद्र 20, 1936

No. 1808]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 17, 2014/BHADRA 20, 1936

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अगस्त, 2014

**का.आ. 2299(अ).**—केन्द्रीय सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि पश्चिम बंगाल राज्य में पारादीप (उड़ीसा) से दुर्गापुर (पश्चिम बंगाल) तक वाया हल्दिया एलपीजी परिवहन के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा एक पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए ;

और केन्द्रीय सरकार को ऐसी पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ऐसी भूमि में जो इससे उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित है और जिसमें उक्त पाइपलाइन बिछाए जाने का प्रस्ताव है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन्स (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको इस अधिसूचना से युक्त भारत के राजपत्र की प्रतियाँ साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती है, इक्कीस दिन के भीतर भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाए जाने के लिए उसमें उपयोग के अधिकार के अर्जन के सम्बन्ध में श्री एस. सी. सरकार, डब्ल्यू. बी. सी. एस. (प्रशासनिक) सेवानिवृत्त सक्षम प्राधिकारी, पारादीप—हल्दिया—दुर्गापुर एलपीजी पाइपलाइन एवम् पारादीप—हल्दिया—बरोनी पाइपलाइन ऑगमेंटेशन योजना, डाकघर दुईल्या, आन्दुल—मौरी, मौरी ग्राम हावड़ा—711 302 (पश्चिम बंगाल) को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा।



## अनुसूची

पुलिस स्टेशन : मगरा		जिला : हुगली	राज्य : पश्चिमबंगाल		
क्रम सं.	मौजा का नाम	खसरा सं. (एल. आर.)	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	एयर	वर्गमीटर
1	2	3	4	5	6
1	डिंगलहाट-44	140	00	01	80

[ फा. सं. आर-25011 / 14 / 2012 / ओ.आर.-I ]

पवन कुमार, अवर सचिव

## MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

## NOTIFICATION

New Delhi, the 28th August, 2014

**S. O. 2299(E).**—Whereas, it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transportation of Liquefied Petroleum Gas from Paradip (Odisha) to Durgapur (West Bengal) Via Haldia a pipeline should be laid in State of West Bengal by Indian Oil Corporation Limited.

And whereas, it appears to the Central Government that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in land under which the said pipeline is proposed to be laid and which is described in the Schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Any person interested in the land described in the said schedule may, within twenty one days from the date on which copies of the Gazette of India containing this notification are made available to the general public, object in writing to the acquisition of the right of user therein for laying of the pipeline under the land to Shri S. C. Sarkar, W.B.C.S (Exe.) Retd. Competent Authority Paradip – Haldia –Durgapur LPG Pipeline & Augmentation of Paradip – Haldia –Barauni Pipeline Project, P.O. Duillya, Andul - Mouri, Mourigram, Howrah-711302 (West Bengal)

## SCHEDULE

P S: Magra		District : Hooghly	State : West Bengal		
Sl. No.	Name of the Mouza	Khasra No (L.R.)	Area		
			Hectare	Are	Square meter
1	2	3	4	5	6
1	Dingalhat - 44	140	00	01	80

[F. No. R-25011/14/2012-OR-I]

PAWAN KUMAR, Under Secy.

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अगस्त, 2014

**का.आ. 2300(अ).**—केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 145 तारीख



18 जनवरी, 2013, जो भारत के राजपत्र तारीख 19 जनवरी, 2013, में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पश्चिम बंगाल राज्य में पारादीप (उड़ीसा) से दुर्गापुर (पश्चिम बंगाल) तक वाया हल्दिया एलपीजी परिवहन के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को तारीख 03 अक्टूबर, 2013, तक उपलब्ध करा दी गई थी ;

और सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है ;

और केन्द्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ;

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में निहित होगा ।

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अध्याधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड पूर्णतया उत्तरदायी होगी और पाइपलाइन से सम्बन्धित किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध कोई वाद, दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी ।

#### अनुसूची

पुलिस स्टेशन : मगरा		जिला : हुगली	राज्य : पश्चिम बंगाल		
क्रम सं.	मौजा का नाम	खसरा सं. (एल. आर.)	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6
1	डिंगलहाट . 44	24	00	00	90
		23	00	00	20
		38 / 588	00	00	20
		38 / 587	00	01	60
		38 / 600	00	00	20
		36	00	03	00
		36 / 563	00	00	80
		38 / 582	00	01	90
		37 / 566	00	02	90

[फा. सं. आर-25011 / 14 / 2012-ओ.आर.-I]

पवन कुमार, अवर सचिव



**NOTIFICATION**

New Delhi, the 28th August, 2014

**S.O. 2300(E).**—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. No. 145 dated the 18th January, 2013, issued under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), published in the Gazette of India dated the 19th January, 2013, the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for the transportation of Liquefied Petroleum Gas from Paradip (Odisha) to Durgapur (West Bengal) Via Haldia by Indian Oil Corporation Limited;

And whereas copies of the said Gazette notification were made available to the public up to 03.10.2013;

And whereas the competent authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act submitted report to the Central Government;

And whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vest on the date of publication of the declaration, in Indian Oil Corporation Limited, free from all encumbrances.

Indian Oil Corporation Limited shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P & MP Act, 1962 and no suit, claim or legal proceeding would lie against the Central Government on any matter relating to the pipeline.

**SCHEDULE**

P S: Magra		District : Hooghly	State : West Bengal		
Sl. No.	Name of the Mouza	Khasra No (L.R.)	Area		
			Hectare	Are	Square meter
1	2	3	4	5	6
1	Dingalhat - 44	24	00	00	90
		23	00	00	20
		38/588	00	00	20
		38/587	00	01	60
		38/600	00	00	20
		36	00	03	00
		36/563	00	00	80
		38/582	00	01	90
		37/566	00	02	90

[F. No. R-25011/14/2012-OR-I]

PAWAN KUMAR, Under Secy.